

राजस्थान सेवा समिति संचालित राजस्थान हिंदी हाई स्कूल को अहमदाबाद जिला स्तर पर "श्रेष्ठ शाला" के रूप में पुरस्कृत

9 दिसंबर 2020 (बुधवार) को, राजस्थान सेवा समिति संचालित राजस्थान हिंदी हाई स्कूल, शाहीबाग, अहमदाबाद में जिला शिक्षणाधिकारी अहमदाबाद शहर की टीम द्वारा एक निरीक्षण किया गया था क्योंकि स्कूल ने अहमदाबाद जिला स्तर पर श्रेष्ठ शाला पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए जिला शिक्षणाधिकारी अहमदाबाद शहर को आवेदन दिया था। निरीक्षण के लिए आई टीम में शिक्षण निरीक्षक श्री कनुभाई गोहिल, डॉ नम्रता उपाध्याय, डॉ रजनीकांत रावल (सीनियर लेक्चरर-जिला शिक्षण तालीम भवन) और आचार्य श्रीमती जानी बहन भादरका (राष्ट्रीय पारितोषिक विजेता) शामिल थे।

हमारी शाला के कार्यवाहक प्रिंसिपल श्रीमती रीमा शर्मा ने स्कूल के इतिहास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद स्कूल की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में पीपीटी की प्रस्तुति दी गई जिसमें स्कूल के प्रस्तावित नए भवन का वीडियो भी दिखाया गया था। जिला शिक्षणाधिकारी के निरीक्षकों ने स्कूल के शिक्षकों के साथ बातचीत की एवं उन्होंने पूरे स्कूल का निरीक्षण किया। जिसमें उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण देते हुए शिक्षकों का, कंप्यूटर विभाग का एवं विज्ञान की प्रयोगशालाओं की मुलाकात ली। उन्होंने माध्यमिक शिक्षण बोर्ड और पाठ्य पुस्तक मण्डल में हमारे शिक्षकों के योगदान को उनके ध्यान में लाया गया। साथ ही साथ हमारी शाला के विद्यार्थियों का बोर्ड में सतत सर्वोच्च प्रदर्शन की जानकारी भी दी गई तथा राजस्थान सेवा समिति द्वारा की जाने वाली निश्चार्थ सेवा(शिक्षा,स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक आपदा) के बारे में अवगत करवाया गया। निरीक्षण के समय में हमारी शाला की ऑनलाइन कक्षा के दौरान छात्रों से वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने शाला में चलने वाली विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में शिक्षकों से बातचीत की जो निम्नानुसार है।

1. शाला के पिछले पांच साल का परिणाम
2. शाला में चलने वाली विज्ञान, वाणिज्य एवं कला प्रवाह(हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम) एवं कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन के बारे में चर्चा की गई
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
4. कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श
5. जागरूकता कार्यक्रम(अधिकार एवं कर्तव्य)
6. शैक्षणिक प्रवास
7. पूर्व छात्र संघ एवं संबंधित गतिविधियां
8. भारतीय एवं शालाकीय परंपरा का अनुपालन : वार्षिकोत्सव
9. खेलकूद संबंधित जानकारी
- 10 एनसीसी(एयरविंग)
11. इको क्लब
- 12 अटल टिकरिंग लैब
- 13 हिंदी सहित्य परिषद
- 14 विज्ञान एवं वाणिज्य सेमिनार
- 15 विज्ञान प्रदर्शनी
- 16 आन्तरस्कूल प्रतियोगिता

उपरोक्त सभी गतिविधियों के निरीक्षण के परिणाम स्वरूप राजस्थान हिंदी हाई स्कूल को जिला शिक्षणाधिकारी अहमदाबाद शहर द्वारा अहमदाबाद जिला स्तर पर अनुदानित शालाओं में से श्रेष्ठ शाला के रूप में घोषित किया गया। हमारी शाला के संचालक

मण्डल ,शिक्षकगण,बिन शैक्षणिक कर्मचारी, विद्यार्थी एवं समस्त अभिभावकों के लिए गौरव की बात है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है।

शाला की सर्वग्राही उन्नति के लिए शाला परिवार सतत प्रयत्नशील रहेगा।